



નેક બાનને કો નુસ્ખા

ઈસ્લામી ભાઈઓ કે દિઓ

પન્દરહવીં સદી કી અઝીમ ઈલ્મી વ રૂહાની શખ્સિયત

શૈખે તરીકત, અમીરે એહલે સુન્નત, ખાનિએ દાવતે ઈસ્લામી, હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ



મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અતાર કાદિરી રઝવી

ને ઈસ પુર ફિતન દૌર મેં નેકિયાં કરને ઓર ગુનાહોં સે

બચને કે તરીકોં પર મુશ્તમિલ શરીઅત વ તરીકત કા જામેઅ મજમૂઆ

72 નેક આમાલ

બ સૂરતે સવાલાત અતા ફરમાએ હેં.

ઈન કે મુતાબિક અમલ કરને કા તરીકએ કાર આખિર મેં દિયા ગયા હે .

પેશકશ : મર્કઝી મજલિસે શૂરા (દાવતે ઈસ્લામી)

www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

કિતાબ પઢને કી દુઆ

દીની કિતાબ યા ઇસ્લામી સબક પઢને સે પહલે ઝેલ મેં દી હુઈ દુઆ પઢ લીજિએ **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** જો કુછ પઢેંગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હે :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

તર્જમા : ઐ અલ્લાહ **عَزَّوَجَلَّ** ! હમ પર ઇલ્મો હિકમત કે દરવાઝે ખોલ દે
ઔર હમ પર અપની રહમત નાઝિલ ફરમા ! ઐ અઝમત ઔર બુઝુર્ગી વાલે !

(مسطر ف ج ص ٤٠ دار الفكر بيروت)

નોટ : અવ્વલ આખિર એક - એક બાર દુરુદ શરીફ પઢ લીજિએ.

તાલિબે ગમે મદીના

બકીઅ

વ મગફિરત

13 શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1428 હિ.



કિયામત કે રોઝ હસરત

ફરમાને મુસ્તફા **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : સબ સે ઝિયાદા હસરત કિયામત કે દિન ઉસ કો હોગી જિસે દુન્યા મેં ઇલ્મ હાસિલ કરને કા મૌકઅ મિલા મગર ઉસ ને હાસિલ ન કિયા ઔર ઉસ શખ્સ કો હોગી જિસ ને ઇલ્મ હાસિલ કિયા ઔર દૂસરોં ને તો ઉસ સે સુન કર નફઅ ઉઠાયા લેકિન ઉસ ને ન ઉઠાયા (યા'ની ઉસ ઇલ્મ પર અમલ ન કિયા)

(تاريخ دمشق لابن عسكراج ٥١ ص ١٣٨ دار الفكر بيروت)

કિતાબ કે ખરીદાર મુતવજ્જેહ હો

કિતાબ કી તબાઅત મેં નુમાયાં ખરાબી હો યા સફહાત કમ હોં યા બાઈન્ડિંગ મેં આગે પીછે હો ગએ હોં તો મક્તબતુલ મદીના સે રુજૂઅ ફરમાઈએ.

www.dawateislami.net

यौभिया 56 नेक आमाळ

पेडला दरजा 19 नेक आमाळ

(1) क्या आज आप ने कुछ न कुछ जर्णज कामों से पेडले कम अज कम अेक अेक अरखी नियत की ?

(काश ! किसी अेक को तरगीब भी, तीन कामों में अरखी नियत करने से नेक अमल पर अमल मान लिया जअेगा.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(2) क्या आज आप ने पांयों नमाजों जभाअत से अदा कीं ?

(काश ! पेडली सक मअ तकबीरि उला कभी न छूटे.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(3) क्या आज आप ने घर, बाजार, मार्केट वगैरा जडां भी थे वडां नमाजों के अवकात में नमाज पढने से कबल नमाज की दावत दी ?

(काश ! पांयों नमाजों में किसी अेक को अपने साथ मस्जिद लेते जअें.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(4) કયા આજ આપ ને રાત મેં સૂરતુલ મુલક પઢ યા સુન લી ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(5) કયા આજ આપ ને પાંચોં નમાઝોં કે બાદ કમ અઝ કમ એક એક બાર આયતુલ કુરસી, સૂરતુલ ઈખ્લાસ ઓર તરબીહે ફતિમા ﷻ પઢી ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(6) કયા આજ આપ ને કન્ઝુલ ઈમાન મઅ ખઝાઈતુલ ઈરફાન યા નૂરુલ ઈરફાન સે કમ અઝ કમ ત્રીન આયાત તર્જમા વ તફસીર કે સાથ પઢી યા સુની ? યા સિરાતુલ જિનાન સે કમો બેશ દો સફહાત પઢ યા સુન લિએ ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(7) કયા આજ આપ ને શજરે કે કુછ ન કુછ ઓરાદ પઢે ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(8) કયા આજ આપ ને કમ અઝ કમ 313 બાર દુરૂદ શરીફ પઢા ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(9) क्या आज आप ने आंभों को गुनाहों (यानी बट निगाही, झिमें ड्रामे, मोबाईल पर गन्दी तसावीर और वीडियोज, ना मेडरम औरतों और कजिन्ज वगैरा को देखने) से बचाया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(10) क्या आज आप ने कानों को गुनाहों यानी गीबत, गाने बाजों, भुरी और गन्दी बातों, मोबाईल की म्यूज़िकल ट्यून्, कॉवर ट्यून् वगैरा वगैरा सुनने से बचाया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(11) रास्ते में चलते हुवे या कार या बस वगैरा में सफ़र के दौरान फुट को कुजूल निगाही से बचाते हुवे क्या आज आप ने निगाहें नीची रहीं ? और बिवा ज़रत र्थर उधर देखने से अपने आप को बचाया ?

(जड़े नसीब ! किसी से बात करते वक़्त सामने वाले के चेहरे पर बिवा ज़रत मुसलसल नज़र ज़मी रेखने के बज्जअे नीची रखा करे.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(12) क्या आज आप ने आवा उज़रत **مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ** या मक़तअतुल मदीना की किसी किताब या रिसाबे या "माहनामा हैज़ाने मदीना" को कम अज़ कम 12 मिन्ट पढा या सुना ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(13) क्या आज आप ने बात थीत, क्षेत्र पर गुफ्तगू और काम काज मौकूँ कर के अजानो ईकामत का जवाब दिया ?

(अगर पेडले से पा पी रहे हों और अजान शुद्ध हो जाये तो पाना पीना जारी रखने में डरज नहीं, ईसी तरह नमाज की तैयारी के सिलसिले में चलने और वुजू करने वगैरा में भी कोई मुजायका नहीं.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(14) आज आप ने (घर में या बाहर) किसी पर गुरसा आ जाने की सूरत में युप रेल कर गुरसे का ईबाज इरमाया या बोल पणे ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(15) क्या आज आप ने अपने आमाव का जईजा लेते हुवे नेक अमल के रिसावे के पाने पुर किये ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(16) क्या आज आप ने "मर्कज़ी मजबिसे शूरा" के उसूलों के मुताबिक अपने निगरान की ईताअत की ?

(शरीअत की ईजाजत होने की सूरत में शूरा की ईताअत मेरी ईताअत, शूरा की नाइरमानी मेरी नाइरमानी है-सगे मदीना ﷺ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(17) क्या आज आप ने घर और बाहर दर छोटे बणे से अरछे अन्दाज से यानी आप जनाब और "जु"- "जु" केड कर गुस्तगू की ?

(दरबे मौकअ बेदरे पर मुस्कुराडट भी रभिअे.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(18) क्या आज आप ने मद्रसतुब मदीना (बाविगान) में कुरआने करीम पढा या पढाया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(19) क्या आज आप ने ईशा की जमाअत से दो घन्टे के अन्दर अन्दर सोने की कोशिश की ?

(TV पर बराडे रास्त मदनी मुज़ाकरे और दावते ईस्वामी के प्यूसूसी ईजतेमाआत वगैरा में शिकत या वकत के अन्दर घर पडॉय कर ईबादत व मुतावअे के सबब डोने वाली ताप्पीर में किसी की डक तलईी वगैरा न डोती डो तो नेक अमल दुरुस्त डै.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

दूसरा दरजा 19 नेक आमाळ

(20) क्या आज आप ने दावते ईस्लामी क मद्दनी कामों को अपन निगरान के दिअे लुवे शिडयूल के मुताबिक कम से कम द्रो घन्टे दिअे ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(21) क्या आज आप ने सदाअे मदीना लगाई ?

(दावते ईस्लामी के मद्दनी माखोल में नमाजे क्वा के लिअे मुसलमानों को जगाना "सदाअे मदीना लगाना" केडवाता है.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(22) क्या आज आप ने अपने घर के जड़कों (यानी बाहर टोपने के लिअे रभी गई फिडकियों) से (बिवा जड़रत) बाहर नीज किसी और के दरवाजों वगैरा से उन के धरों के अन्दर जांके से अचने की कोशिश की ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(23) क्या आज आप के यहाँ घर दर्स लुवा ? या किसी उजूर की सूरत में आप की गैर मौजूदगी में घर दर्स का सिलसिला लुवा ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(24) क्या आज आप ने कम अज कम **अेक मदनी दर्स** (मस्जिद, दुकान, बाजार वगैरा जहाँ सलूलत हो) दिया या सुना ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(25) क्या आज आप ने सुन्नत के मुताबिक़ विभास (जो बेडीज कवर मसलन शोभ या नी तेज रंग या यमकीला न हो या जैसे रंग का भी न हो जो शरअन मना है वोड) पेडना ?^①

(वम्बा अरबी कुर्ता टप्ने से ओपर पेडनने वाले ईस्लामी भाई का नेक अमल दुरुस्त मान लिया जअेगा.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

مَدِينَة

① सुन्नत येड है के दामन की वम्बाई आधी पिन्डवी तक हो और आरतीन की वम्बाई जियादा से जियादा ढंगवियों के पोरों तक और यौणाई अेक भाविशत हो. (رد المحتار، کتاب، فصل فی اللبس، ۹/۵۷۹) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ ने ईस को पसन्ट इरमाया है. इअरते सैयदुना समुरड से मरवी है के डुजुरे पाक सल्लम عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ ने इरमाया : सकेट विभास पेडनो ! क्यूके येड जियादा साक और पाकीजा है और अपने मुद्दों को भी ईसी में कइनाओ. (ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی لبس البياض، ۳/۳۷۰، حدیث: ۲۸۱۹).

(26) क्या आप का जुद्धे रफने की सुन्नत पर अमल है ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(27) अक मुशत (मुह्री) दाही रफना वाज़िब है. आज आप ने फुदा ना फ्वास्ता दाही मुन्डाने या अक मुशत से घटाने का गुनाह तो नहीं किया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(28) क्या आज आप ने مَكَادِم गुनाह हो जाने की सूरत में झौरन तौबा की ? (काश ! रोजाना कम अज कम 70 बार ईस्तिग़्दार मसलन 70 बार اَسْتَغْفِرُالله पढना नसीब हो जाये.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(29) क्या आज आप ने सुन्नत के मुताबिक जाना जाया और जाने से पेड़वे और भाद की टुआओं पढीं ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(30) क्या आज आप ने घर, दफ्तर, बस, ट्रेन वगैरा में आते जाते और गलियों से गुजरते दुबे राह में भणे या बैठे दुबे **मुसलमानों को सलाम** किया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(31) क्या आज आप ने र्शन **सुन्नतों पर कुछ न कुछ अमल** किया ? : भिस्वाक, घर में आना जाना, सोना जगना, किल्ला रुप बैठना वगैरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(32) क्या आज आप ने **जोडर** की चार सुन्नते कबिलया इर्ज से पेडले अदा की ? (भयाव रडे के जोडर की चार सुन्नते कबिलया सुन्नते मोअककदा हैं और र्शन का चार रकअत इर्ज से पेडले पढना भी सुन्नते मोअककदा है.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(33) क्या आज आप ने तडज्जुद की नमाज पढी ? या रात न सोने की सूरत में सलातुलैव अदा की ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(34) क्या आज आप ने अक्वाबीन या **ईशराक व याश्त** के नवाइल पढे ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(35) ક્યા આજ આપ ને અસ્સર યા ઈશા કી સુન્નતે કબિલયા પઢી ?
(ઝહે નસીબ ! અસ્સર ઔર ઈશા દોનોં કી સુન્નતે કબિલયા ઔર ઝોહર વ મગરિબ વ ઈશા કે નવાફિલ ભી અદા કિએ જાએ.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(36) ક્યા આજ આપ ને ઈનકિરાદી કોશિશ કે ઝરીએ દાવતે ઈસ્લામી કે 12 મદની કામ મેં સે કમ અઝ કમ એક મદની કામ કી તરગીબ દિવાઈ ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(37) આજ આપ ને દૂસરોં સે માંગ કર કોઈ ચીઝ (મસલન : ચપ્પલ, ચાદર, મોબાઈલ ફોન, ચાર્જર, ગાળી વગૈરા વગૈરા) ઈસ્તેમાલ તો નહીં કી ?

(દૂસરોં સે સવાલ કી આદત હો તો નિકાલ દીજિએ, ઝરૂરત કી ચીઝ નિશાની લગા કર અપને પાસ બ હિફાઝત રખિએ.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(38) ક્યા આજ આપ ઝૂટ બોલને, ગીબત વ યુગલી કરને / સુન્ને સે બચે ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

तीसरा दरजा 18 नेक आमाव

(39) क्या आज आप ने कुछ न कुछ वक्त के लिये "भदनी येनव" देया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(40) क्या आप की किसी अेक या यन्द से दुन्यवी तौर पर जाती दोस्ती तो नही है ?

(जाती दोस्तियां और ग्रुप, तन्जीमी कामों की तरक्की में आम

तौर पर रुकावट बनते हैं.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(41) आज आप ने कर्ज खोने की सूरत में (अदायेगी की ताकत के बा वुजूद)

कर्ज ष्वाड (कर्ज देने वाले) की ईजाजत के बगैर कर्ज अदा करने में ताप्पीर तो

नहीं की ? नीज किसी से आरियतन (यानी Temporary) वी लुई चीज अर्ज़रत

पूरी खोने पर तै किये लुवे वक्त के अन्दर वापस कर दी ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(42) आज आप ने **आजिजी** के जैसे अल्हाज जिन की ताईद दिव न करे भोल कर निहाक व रियाकारी का जुर्म तो नहीं किया ? मसलन लोगों के दिव में अपनी ईज्जत बनाने के लिये ईस तरद केडना : "मैं लडीर हूँ, कमीना, हूँ" जब के दिव में ऐसा न समजता हो.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(43) क्या आप **सफ़ाई सुथराई** के आदी और सवीका मन्द हैं ?

(**सफ़ाई सुथराई** : यानी बदन व लिबास, घर और जहाँ काम करते हैं वोड जगद और वहाँ की अस्था साङ् रभना वगैरा. **सवीका** : यानी वक्त की पाबन्दी, घर और अपनी या किसी और की गाणी में बैठते वक्त बिवा अरुत जोर से दरवाजा बन्द न करना, अपने घर, तावीमगाड, दक्तर या किसी के यहाँ की जो चीज ईज्जत होने की सूरत में उठाई किर उसी जगद रभना वगैरा.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(44) आज आप ने किसी मुसलमान का औब जादिर हो जाने पर (बिवा मरखेदते शरई) उस का औब किसी और पर जादिर तो नहीं किया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीजान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(45) કયા આજ આપ ને બાદે કુજ મદની હલકા લગાયા યા શિકત કી ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(46) કયા આજ આપ ને હર જઈઝ વ ઈઝઝત વાલે કામ સે પેહલે **بِسْمِ اللَّهِ** પઢી ?

(કમ સે કમ તીન બાર પઢને વાલે કા અમલ માન લિયા જાએગા.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(47) કયા આજ આપ ને ચૌક દર્સ દિયા યા સુના ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(48) કયા આજ આપ ને અપને વાલિદૈન ઓર પીરો મુશિદ કે લિએ દુઆએ મગફરત ઓર કુછ ન કુછ **ઈસાલે સવાબ** કિયા ?

(એક બાર દુરુદ શરીફ પઢ કર ભી ઈસાલે સવાબ કિયા જ સકતા હે.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(49) કયા આજ આપ ને મસ્જિદ, ઘર, ઓફિસ વગેરા મેં ઈસરાફ સે બચને કી કોશિશ કી ?

(મસલન : લાઈટ, પંખા, બિજલી વગેરા કા બિલા ઝરૂરત ઈસ્તેમાલ કરના, ઝરૂરત સે ઝિયાદા પાની ગિરાના યા બહાના.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(50) કયા આજ આપ ને ટ્રાફિક કવાનીન કી પાબન્દી કી ?

(જેસે મોટર સાયકલ ચલાતે વક્ત હેલ્મેટ, ગાળી ચલાને કી સૂરત મેં મોબાઈલ કા ઈસ્તેમાલ ન કરના, સીટ બેલ્ટ બાંધના, સિગ્નલ કા લેહાઝ રખના, વન વે ન તોળના વગેરા વગેરા. ગાળી ન ચલાને વાલા અગલી સીટ પર બેઠને કી સૂરત મેં સીટ બેલ્ટ બાંધે.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	મીઝાન
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(51) કિસી ઈસ્લામી ભાઈ (ખુસૂસન ઝિમ્મેદાર) સે ﷻ કોઈ બુરાઈ સાદિર હો જાએ ઓર ઈસ્લાહ કી ઝરૂરત હો તો તેહરીરી તૌર પર યા મિલ કર, બરાહે રાસ્ત (નર્મી) સે સમજાને કી કોશિશ ફરમાઈ ? યા ﷻ બિલા ઈજાઝતે શરઈ કિસી ઓર પર ઈઝહાર કર કે ગીબત કા ગુનાહે કબીરા કર બેઠે ? હાં, નાકામી કી સૂરત મેં

जो इस की ईस्वाव पर कादिर हो उसे बताने में दरज नहीं। नीज वोड बुराई अगर दीन व दावते ईस्वामी के लिये नुक्सानदेह हो तो फिर तन्जीमी तरकीब के मुताबिक मरअवा डल करने में भी मुजाअका नहीं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(52) क्या आज आप ने **जबान को गुनाहों** (यानी ईस्वाम तराशी, दिव आज़ारी, गावी गवोय वगैरा) से बचाया ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(53) क्या आज आप ने **जबान को कुतूब ईस्तेमाव** (यानी वोड गुस्तगू ग़िस से दीनी या दुन्यावी झर्छा न हो) से बचाने की आदत बनाने के लिये कुछ न कुछ ईशारे से गुस्तगू की ?

(जड़े नसीब ! रोजाना कम से कम चार बार लिफ़ कर और कम से कम तीन बार ईशारे से गुस्तगू और दर माड की पेडवी पीर शरीफ़ यौमे कुह्वे मदीना मनाने की सआदत डसिब हो.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

(54) क्या आज आप ने (घर में और बाहर) मज़ाक मस्फ़री, तन्ज़, टिल आज़ारी और केडकडा लगाने (यानी पिल पिला कर हंसने) से बचने की कोशिश की ? (याद रखिये ! किसी मुसलमान का (बिला वजह शरई) टिल टुभाना कभीरा गुनाह है.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(55) क्या आज आप ने र्थमामा शरीक़ बांधा ?

(कम से कम अेक घन्टा 12 मिनट बांधने वाले का अमल माना जायेगा.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

(56) क्या आज मां-बाप का अदबो अेडतिराम बज लाये ?

(उन की कडी लुई बात शरीअत के मुताबिक़ डो तो मानना, उन का डाय यूमना, उन की आवाज़ से अपनी आवाज़ धीमी रखना वगैरा वगैरा. मज़ीद तह्सीलात के विये रिसाला "समुन्दरी गुम्बद" का मुताबआ इरमाईये.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	मीज़ान	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

કુફલે મદીના કારકદગી

મહીના સિને 20..... ઈસવી

તારીખ	લિખ કર ગુફતગૂ	ઈશારે સે ગુફતગૂ	નિગાલે ગાળે બગેર ગુફતગૂ
	કમ અઝ કમ 12 મરતબા	કમ અઝ કમ 12 મરતબા	કમ અઝ કમ 12 મરતબા
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

તારીખ	વિખ કર ગુફતગૂ	ઈશારે સે ગુફતગૂ	નિગાલે ગાળે બગેર ગુફતગૂ
	કમ અઝ કમ 12 મરતબા	કમ અઝ કમ 12 મરતબા	કમ અઝ કમ 12 મરતબા
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

હફતાવાર 10 નેક આમાલ

(57) કયા આપ ને ઘર સે ઈસ હફતે કિસી ન કિસી ઈસ્લામી બહન (મસલન બહન / બેટી / વાલિદા / બચ્ચોં કી વાલિદા વગેરા) કો ઈસ્લામી બહનોં કે ઈજતેમાઅ મેં ભેજ ?				
(58) કયા હફતાવાર મદની મુઝાકરા દેખને / સુનને કી સઆદત હાસિલ કી ? (દૌરાનિયા : સવાબ-જવાબ શુરુઅ હોને સે કમ અઝ કમ એક ઘન્ટા 12 મિનટ)				
(59) કયા હફતાવાર સુન્નો બરે ઈજતેમાઅ મેં અવ્વલ સે આખિર (યાની મગરિબ સે ઈશરાક વ યાશત) શિકત કી ?				
(60) કયા આપ ને ઈસ હફતે યૌમે તાતીલ એતેકાફ કી સઆદત પાઈ ?				
(61) કયા ઈસ હફતે કમ અઝ કમ કિસી એક મરીઝ યા દુખ્યારે કે ઘર યા અરપતાલ જા કર સુન્નત કે મુતાબિક ઈયાદત યા ગમખ્વારી યા અઝીઝ કે ઈન્તેકાલ પર તાઝિયત કી ? (અવરાદે અત્તારિયા કે ઈસ્તેમાલ કા મશવરા દે કર સવાબ કમાઈએ.)				
(62) કયા ઈસ હફતે પીર શરીફ (યા રેહ જાને કી સૂરત મેં કિસી ભી દિન) કા રોઝા રખા ?				
(63) કયા ઈસ બાર કા હફતાવાર રિસાલા પઢ યા સુન લિયા ?				

(64) क्या आप ने ईस उइते कम अऊ कम अेक बार अवाकाई दौरा किया ?				
(65) क्या आप ने ईस उइते कम अऊ कम अेक ईरवामी भाई को (जो पेडले मदनी माखोल में थे, या पेडले ईजतेमाअ में आते थे मगर अब नहीं आते) तवाश कर के उन को मदनी माखोल से वाअस्ता करने की कोशिश की ?				
(66) क्या आप ने उइतावार मदनी उडे में शिकत की ?				

माडाना 3 नेक आमाळ

(67) क्या पिछले महीने का नेक आमाळ का रिावाा द्विल (फ़िलायानी पुर) कर के अपने निगरान व जिम्मेदार को जमा करवा दिया ?	
(68) क्या ईस माळ आप ने कम अऊ कम तीन दिन के मदनी काइले में सइर किया ?	
(69) क्या आप ने ईस माळ किसी सुन्नी आलिम (या ईमामे मरिजद, मोअज़्ज़िन, फादिम) की कुछ न कुछ मावी बिदमत की ?	

सालाना 1 नेक अमल

(70) आप ने ईस साल टार्थम टेअल के मुताबिक अेक महीने के काइले में सइर इरमाया ?	
---	--

जिन्दगी भर के 2 नेक आमाव

(71) क्या आप ने जिन्दगी भर के **निसाब का मुताबआ** इस्मा लिया ? (मिन्दाजुल आबेदीन, जअल उक, बदारे शरीअत डिस्सा 9 से मुर्तद का बयान, डिस्सा 16 से ખરીદો इरोप्त का बयान और वावितैन के डुकुक का बयान, अगर शाही शुदा हैं तो डिस्सा 7 से मुदर्मात का बयान और डुकुकजौलैन, डिस्सा 8 से बरथों की परवरिश का बयान, तलाक का बयान, जिदार का बयान और तलाके किनाया का बयान. आवा डजरत **مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ** की कुतुब "तम्हीदुल ईमान, डुसामुल डरमैन" नीज मकतबतुल मदीना की मतभूआ किताबें कुडिया क्लेमात के बारे में सवाल जवाब, यन्दे के बारे में सवाल जवाब, बुन्यादी अकार्ठद और मामूलाते ओडले सुन्नत, अकीदये आभिरत, दस अकीद, ईस्लाम के बुन्यादी अकीद, अल उककुल मुबीन, ईस्लाम की बुन्यादी बातें (तीनों डिस्से), किताबुल अकार्ठद, गुवदरतये अकार्ठदो आमाव, गानों के 35 कुडिया अश्आर, 28 क्लेमाते कुङ्, आवा डजरत से सवाल जवाब, ईस्मुल कुरआन, नमाज के अडकाम और इँजाने सुन्नत के तमाम अबवाब पढ या सुन लिअे ?)

(काश ! डर साल माडे शाबानुल मोअज़्जम में इँजाने सुन्नत का बाब "इँजाने रमजान" पढ या सुन लें.)

(72) जिन्दगी में यकमुश्त यानी ओक साथ 12 माह के मदनी काङ्गिले में सङ्गर और **मुप्तविङ्ग कोर्सिज**(12 मदनी काम कोर्स, 7 दिन का ईस्वाले आमाव कोर्स, 7 दिन का इँजाने नमाज कोर्स) की सआदत डसिल कर ली ?

મેહબૂબે અતાર

અમીરિ એહલે સુન્નત عليه السلام ફરમાતે હૈ :

જો ઝેલ મેં (નીચે) દિએ ગએ ચાર કામ પાબન્દી સે કરે વોહ મેરા “મેહબૂબ” હે.

- (1) રોઝાના કમ અઝ કમ 12 બાર લિખ કર ગુફ્તગૂ.
- (2) રોઝાના કમ અઝ કમ 12 બાર ઈશારે સે ગુફ્તગૂ.
- (3) રોઝાના કમ અઝ કમ 12 બાર સામને વાલે કે ચેહરે પર નઝરેં ગાગે બગૈર ગુફ્તગૂ.
- (4) હર માહ કમ અઝ કમ 63 નેક આમાલ પર અમલ.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ



हर धरामी भाई और भहन के लिये यकसां मुझीद

Jannat Ke Talabgaaron Ke Liye Madani Guldasta (Gujarati)

जन्नत के तलबगारों के लिये मदनी गुलदस्ता



www.dawateislami.net
(दवाते इस्लामी)

www.dawateislami.net

મહીના

સિને 20..... ઈસવી

નામ મઅ વલદિયત.....ઉમ્મ તકરીબન.....

મુકમ્મલ પતા.....

ઝેલી હલ્કા.....હલ્કા.....અલાકા/શહર.....

1. ઈસ માહ 72 નેક આમાલ મેં સે કિતને પર અમલ કી કોશિશ રહી ?

2. ઈસ માહ કિતને દિન જાઈઝે કી સઆદત હાસિલ કી ?

3. ઈસ માહ કિતને દિન કાફિલે મેં સફર કી સઆદત હાસિલ કી ?

4. ઈસ માહ મહબૂબે અત્તાર બનને કી સઆદત હાસિલ હુઈ ?

5. ﷻ આઈન્દા નેક આમાલ પર અમલ કી કોશિશ કરુંગા

આપ ને જાઈઝે (યાની જાઈઝે કે દૌરાન ખાના પુરી કરને) કે લિએ

કૌન સા વકત મુકરર ફરમાયા હૈ

اللَّهُ

مُحَاسَبَةٍ

روزانہ وقتِ مقررہ (FIX TIME) پر
اپنا مُحَاسَبَہ (یعنی اپنے دن بھر کے
نیک و بد اعمال کے مُتعلّق غور و فکر کر کے
مزید بہتری لانے کا ذہن بناتے ہوئے
رسالہ: صَدَنِ اِنطامِ خانے پُرکرنے
کا سلسلہ سِجِّے۔)



رِسالے مَیں ۷۲ نِک اَمَل کَے نِیچے 30 دِینوں کَے پِانے دِیئے گِئے ۛیں. جِین
نِک اَمال پَر اَمَل کِی سِعاَدت مِیلِی، نِیچے پِانے مَیں () کِا نِشاان وَرنا
(0) بِناا دِیجِیئے اِن شِااۛہ اَمَل مَیں ۛنْاا کَے سااھ سااھ دِیل مَیں گِونااۛوں
سَے نِکرت پِااۛوے.

ۛدِی سَے پاک مَیں ۛے: (اِباپِرت کَے مُواامَلے مَیں) وِڭی اَمَر گِوِرو کِیک کَرنا 60 ساال
کِی ۛباَدت سَے ۛکتر ۛے.

دُعااۛ اَتار: یا اَللّٰہ پاک جِو ۛر مااۛ تِری رِجا کَے دِیئے نِک اَمال
پَر اَمَل کَر کَے رِواااا ۛس رِساالے مَیں دِیئے گِئے پِانے پُور کَر کَے اِپنَے جِئِلی
مُشاا وَرت کَے نِگارِان کِو جِامِ کَر وَااے تُو ۛس کَے اَمَل مَیں ۛسْتِکامت اَتا کَر ما
کَر ۛس کِو اِپنِا مَکبُوَل بِنْدا بِناا لَے.



01011598



Maktabat
Madina

- 📍 Mohammd Ali Road, Mandvi Post Office, Mumbai 📞 9022177997, 9320558372
- 📍 Faizane Madina, Triconia Bagicha, Mirzapur, Ahmedabad 📞 9327168200
- 📍 421, Urdu Market, Matia Mahal, Near: Noor Guest House, Jama Masjid, Delhi
- 📞 011-23284555, 011-278626025 *Toll Apply
- 🌐 www.dawateislami.net
- 📧 feedbacknhind@gmail.com
- 🌐 www.dawateislamihind.net

